



भारतीय मानक ब्यूरो

(उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार)

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Govt. of India)

मानक भवन, 9 बहादुरशाह जफर मार्ग नई, दिल्ली-110002
Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Phones: 23230131 / 23233375 / 23239402
Website: www.bis.org.in, www.bis.gov.in

DRAFT INDIAN STANDARD IN WIDE CIRCULATION

Reference : ETD/39/G-1

Date : 01 December 2022

TECHNICAL COMMITTEE : Fuses, ETD 39

To,

All concerned

Dear Madam/Sir,

The following document has been prepared by the Fuses Sectional Committee, ETD 39. Please [click here](#) to view the document.

Document Number : ETD 39 (21270) WC

Title of the document : Low-voltage fuses Part 4: Supplementary requirements for fuse-links for the protection of semiconductor devices first revision

Document Type : Revision of Indian Standard (IS 13703 : Part 4 : 1993)

This document has following salient features which may require specific attention for your valuable comments:

- 1) *This part is to be used in conjunction with IS/IEC 60269-1:2014, Low-voltage fuses – Part 1: General requirements.*
- 2) *The introduction of voltage source inverter fuse-links, including test requirements.*
- 3) *Coverage of the tests on operating characteristics for a.c. by the breaking capacity tests.*
- 4) *The updating of examples of standardized fuse-links for the protection of semiconductor devices.*

Please examine the document and share your comments regarding further improvement in the document.

Last date for sharing the comments is : 30 January 2023

The comments should be shared in the prescribed template through this portal only; and the comments so received shall be taken up by the Sectional Committee for necessary action. For any other query, please write an email at eed@bis.gov.in to the undersigned at Bureau of Indian Standard, Manak Bhawan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.

In case no comments are received, we would presume your approval of the documents. However, in case we receive any comments on the document, the same shall be put up to the Sectional Committee for necessary action.

Thanking You,

Yours faithfully,
(PRITI BHATNAGAR)
Head (Electrotechnical Department)
Email: eetd@bis.gov.in



व्यापक परिचालन में मसौदा(दे)

हमारा सन्दर्भ : ETD/39/G-1

दिनांक : 01-12-2022

तकनीकी समिति : Fuses Sectional Committee, ETD 39

प्राप्तकर्ता : रूचि रखने वाले सभी निकाय

महोदय/या,

निम्नलिखित मसौदा तैयार किया गया है :

प्रलेख संख्या : ETD 39 (21270) WC

शीर्षक :

कृपया इस/इन मानक(को)/संशोधन(नो) के मसौदे(दो) का अवलोकन करें और अपनी सम्मतियाँ यह बताते हुए भेजें कि यदि ये मानक(को) के संशोधन(नो) के रूप में प्रकाशित हो तो इन पर अमल करने में आपके व्यवसाय अथवा कारोबार में क्या कठिनाइयां आ सकती हैं।

सम्मतियाँ भेजने की अंतिम तिथि : 30 January 2023

सम्मतियाँ, यदि कोई हों तो, कृपया यहाँ क्लिक करके ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ऊपर दी गयी अंतिम तिथि तक दर्ज कराएं।

यह/ये प्रलेख भारतीय मानक ब्यूरो की वेबसाइट www.bis.gov.in पर भी उपलब्ध है/हैं।

धन्यवाद।

भवदीय/भवदिया,
विभाग प्रमुख का नाम : PRITI BHATNAGAR
(Electrotechnical Department)
ई-मेल : eetd@bis.gov.in